

#### CIN: L74999DL2003GOI118633

RVNL/SECY/STEX/2020 16<sup>TH</sup> June, 2020

**BSE Limited** 

1st Floor, New Trade Wing,

Rotunda Building, Phiroze Jeejeebhoy Towers,

Dalal Street Fort,

Mumbai-400001

Scrip Code: 542649

National Stock Exchange of India Ltd.

National Stock Exchange of India Ltd.,

Exchange Plaza, C-1, Block G,

Bandra Kurla Complex,

Bandra (E), Mumbai – 400051

Scrip Code: RVNL

Sub: Publication of Notice of Board Meeting in Newspaper

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 47 (1) (a) of SEBI (LODR) Regulations, 2015, please find enclosed copy of Notice published in Newspapers (English & Hindi) regarding Board Meeting of the Company scheduled to be held on Wednesday, 24th June, 2020.

This is for your Information and record.

Thanking You,

Yours faithfully,

For Rail Vikas Nigam Limited

(Kalpana Dubey)
Company Secretary & Compliance Officer
Membership No. F7396
9560697008 (Mobile)

#### Zydus Cadila CADILA HEALTHCARE LIMITED [CIN L24230GJ1995PLC025878] dedicated/1/2

Regd. Office: Zydus Corporate Park, Scheme No. 63. Survey No. 536, Near Vaishnodevi Circle, Khoraj (Gandhinagar), Sarkhej - Gandhinagar Highway, Ahmedabad - 382481. Web : www.zyduscadila.com Telephone : +91-079-71800000, +91-079-48040000

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29[1] of SEBI [Listing Obligations and Disclosure Requirements] Regulations, 2015, a Board Meeting of Cadila Healthcare Limited will be held on June 19, 2020 to consider amongst others agenda items, the audited financial results for the quarter / year ended on March 31, 2020. Notice is available on the website of the Company-www.zyduscadila.com and on the

website of BSE Limited-www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited-www.nseindia.com. For CADILA HEALTHCARE LIMITED

Place: Ahmedabad DHAVAL N. SONI Date: June 15, 2020 Company Secretary

## HAP

### HATSUN AGRO PRODUCT LIMITED CIN: L15499TN1986PLC012747

Regd. Office: Domaine, Door No.1/20A, Rajiv Gandhi Salai (OMR), Karapakkam, Chennai - 600 097. Tel: 044-24501622 Fax: 044-24501422 Email: secretarial@hap.in Website: www.hap.in

#### NOTICE OF BOARD MEETING

(Under Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. NOTICE is hereby given that pursuant to the applicable regulations of the SEBI (Listing

Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a meeting of the Board of Directors of HATSUN AGRO PRODUCT LIMITED is scheduled to be held on Tuesday, the 23rd June, 2020 at the Registered Office of the Company at Domaine, Door No. 1/20A, Rajiv Gandhi Salai (OMR), Karapakkam, Chennai 600 097, providing the facility of participation of Directors through video conferencing, to inter-alia, consider and take on record, the Audited Financial Results of the Company for the quarter and year ended 31st March, 2020.

**Particulars** 

Net Profit (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)

Net Profit before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)

Total Comprehensive Income [Comprising Profit after tax and Other

Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet)

Net Profit after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)

Paid up Equity Share Capital (Rs.2/- Per Equity Share)

Earnings Per Share (of Rs.2/- each) (Not Annualised):

Total comprehensive income after tax (Rs.in Lakhs)

of Directors at their meeting held on 15th June, 2020.

**Particulars** 

By Order of the Board, for HATSUN AGRO PRODUCT LIMITED

Place: Chennai Date: 15.06.2020

CONTINENTA

Total income

b) Diluted

Comprehensive Income (after tax)]

Total income (Rs.in Lakhs)

Place: Hyderabad

Date: 15-06-2020

Profit before tax (Rs.in Lakhs)

Profit after tax (Rs.in Lakhs)

G. Somasundaram Company Secretary.

CCL Products (India) Limited

Registered Office: Duggirala, Guntur District, Andhra Pradesh - 522 330.

Extract of audited Consolidated financial results for the Quarter Ended 31.03.2020

The above Financial results as recommended by the Audit Committee were considered and approved by the Board

Key data relating to Standalone audited financial results of CCL Products (India) Limited is as under:

stock exchange's websites, www.nseindia.com and www.bseindia.com.

#### ZYDUS WELLNESS LIMITED Zvdus A Subsidiary of Cadila Healthcare Limited Wéllness [CIN-L15201GJ1994PLC023490]

Regd. Office: Zvdus Corporate Park, Scheme No. 63, Survey No. 536, Near Vaishnodevi Circle. Khoraj (Gandhinagar), Sarkhej - Gandhinagar Highway, Ahmedabad - 382481. Telephone: +91-79-71800000, +91-079-48040000. Website: www.zyduswellness.in, Email: dhanraj.dagar@zyduswellness.com

### CORRIGENDUM

This is to inform you that with reference to the Notice published in the Financial Express Dated June 6, 2020 for claiming the dividend and transfer of shares to IEPF, please read the last date to claim the dividend as September 2, 2020 instead of July 20, 2020.

For ZYDUS WELLNESS LIMITED Place: Ahmedabad DHANRAJ P. DAGAR Date: June 15, 2020 Company Secretary

Cadila

#### Zydus CADILA HEALTHCARE LIMITED dedicated ife ICIN L24230GJ1995PLC0258781

Regd. Office: Zydus Corporate Park, Scheme No. 63, Survey No. 536, Near Vaishnodevi Circle, Khoraj (Gandhinagar), Sarkhel - Gandhinagar Highway, Ahmedabad - 382481. Telephone: +91-79-71800000, +91-79-48040000 Website: www.zyduscadila.com; Email: dhavalsoni@zyduscadila.com

#### NOTICE TO THE SHAREHOLDERS

For transfer of shares to the Investor Education and Prote ction Fund ("IEPF") NOTICE is hereby given to the shareholders of Cadila Healthcare Limited ("the Company") that pursuant to the provisions of section 124(6) of the Companies Act. 2013 ("the Act") and the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund') Rules, 2016 ("the Rules"), the Company is required to transfer all such shares in respect to which dividend has remained unpaid / unclaimed by the shareholders for seven consecutive years or more to the IEPF.

The Company has uploaded the details of such shareholders and shares that are due for transfer to IEPF on its website under the Investor Relation section at www.zyduscadila.com. Further, the Company has completed posting notice to the concerned shareholders pursuant to section 124(6) of the Act and Rules made thereunder, whose dividend has remained unclaimed, at their address registered with the Company providing complete details of the shares, if not claimed will be

For further details and for making a valid claim, for the unclaimed dividend lying with the Company, the shareholders who have not claimed their dividend for a period of seven consecutive years from the financial year 2012-2013 can write to the Company / Registrar and Transfer Agent on or before September 15, 2020 and sign as per the specimen signature registered with the Company at the registered office address mentioned above

Link Intime India Private Limited at 506-508, Amamath Business Centre-1, Beside Gala Business Centre, Near St. Xavier's College Corner, Off C. G. Road, Navrangpura,

Please note that no claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend amount and shares transferred to IEPF pursuant to the said section and Rules. Please also be informed that, upon such transfer, shareholders can claim the transferred shares along with dividends by making an application to the IEPF authority in Form IEPF-5 online as prescribed under the Rules and the same are available at IEPF website i.e. For CADILA HEALTHCARE LIMITED

Sd/- DHAVAL N. SONI Company Secretary Date: June 13, 2020



Place: New Delhi

Date: 15.06.2020

Registered office: 1st Floor, August Kranti Bhawan, Bhikaii Cama Place, R. K. Puram, New Delhi, South Delhi- 110066 CIN: L74999DL2003GOI118633, Email: investors@rvnl.org Phone No.: 011-26738299, Fax: 011-26182957

### NOTICE

Notice is hereby given pursuant to Regulation 29, 33 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. ("Listing Regulations") that a meeting of Board of Directors of the Company is scheduled to be held on **Wednesday, 24th June, 2020,** inter alia, to consider. approve and take on record (i) the audited Financial Results (Standalone and Consolidated) of the Company for the quarter and year ended 31st March, 2020 and (ii) recommend Dividend for the FY 2019-20, if any.

This information is also available on website of the Company at www.rvnl.org and website of stock exchanges where the shares of the Company are listed at www.bseindia.com and www.nseindia.com.

Pursuant to the "RVNL code of conduct for regulating and reporting trading by Designated Persons and their immediate relatives" the Trading Window Closure period has commenced from 1st April, 2020 and will end 48 hours after the financial results are made public on 24th of June, 2020.

For Rail Vikas Nigam Limited

Kalpana Dubey Company Secretary & Compliance Officer

INR 12,500/-

Time 11:00 hrs.

03.07.2020

	POWERG	RID
Invit	ation for Bids	Da

Invitation for Bids	Date: 16.06.2020
(Domestic Competitive Bidding under e	a-Procurement)
(Single Stage Two Envelope Bidding	g procedure)
POWERGRID invites online bids from the eligible b	idders through the e-portal

https://pgcileps.buyjunction.in for the fo	ollowing:	
Description & Tender Enquiry No.	Last Date of Sale / Cost of Bid Documents	Date & time of Submission of soft copy part & hard copy parts of bids
Rate Contract for 1x10G Upstream Internet	01.07.2020	01.07.2020

Bandwidth at Delhi Gateway for a period of

Two Years from alternate service provider.

NRTCC/CS/20-21/Internet BW Delhi/1185

Time 11:00 hrs. For further details including addendum/changes in bidding program, if any, please visit procurement portal https://pgcileps.buyjunction.in. The cost of document in the form of non refundable demand draft in favour of

\*Power Grid Corporation of India Ltd. payable at New Delhi shall be submitted alongwith Hard Copy part of proposal. The First Envelope (Techno-Commercial part) of the proposal shall be opened on the deadline of Proposal Submission (i.e. Hard Copy Part of Bids), 30 minutes 🔀

The complete bidding documents are also available on our website Z https://www.powergridindia.com for the purpose of reference only.

Chief Manager( CS, NRTCC) ₽ Email ID: ranvijay@powergridindia.com,

Mob. No.: 09434748278 0 POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED

Northern Region Telecom Control Centre, 400/220 KV GIS S/S Maharani Bagh; Behlolpur Khadar, Opp. ISBT Sarai Kale Khan, New Delhi- 110013 Website: www.powergridindia.com CIN: L40101DL1989GOI038121

POWERGRID - For all your " POINT-TO-POINT LEASED LINE, MPLS VPN & INTERNET NEEDS" CONTACT: telecom-marketing@powergrid.co.in

(A Government of India Enterprise)



Haq, ek behtar zindagi ka.

Website: www.utimf.com

### **NOTICE - CUM - ADDENDUM**

### **Appointment of Chief Executive Officer in UTI Asset Management Company Ltd**

The Board of Directors of UTI Asset Management Company Limited has appointed Mr Imtaiyazur Rahman, Acting Chief Executive Officer as Chief Executive Officer of UTI Asset Management Company Ltd with effect from June 13, 2020.

This addendum No. 05/2020-21 is an integral part of the Statement of Additional Information (SAI) of UTI Mutual Fund and shall be read in conjunction with the SAI.

For UTI Asset Management Company Limited

Authorised Signatory

CIN: L35912MH1975PLC018376

In case any further information is required, the nearest UTI Financial Centre may please be contacted. Mumbai

Toll Free No.: 1800 266 1230 June 15, 2020

REGISTERED OFFICE: UTI Tower, 'Gn' Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400051. Phone: 022 - 66786666, UTI Asset Management Company Ltd. (Investment Manager for UTI Mutual Fund) E-mail: invest@uti.co.in, {CIN-U65991MH2002PLC137867}

For more information, please contact the nearest UTI Financial Centre or your AMFI/NISM certified UTI Mutual Fund Independent Financial Advisor, for a copy of Statement of Additional Information, Scheme Information Document and Key Information Memorandum cum Application Form.

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

## BRITANNIA

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results field with the Stock Exchange

under Regulations 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on company's website at www.cclproducts.com and the

### BRITANNIA INDUSTRIES LIMITED

(Corporate Identity Number: L15412WB1918PLC002964) Registered Office: 5/1A, Hungerford Street, Kolkata - 700 017 Phone: +91 33 22872439/2057 Fax: +91 33 22872501 Website: www.britannia.co.in Email Id: investorrelations@britindia.com

### NOTICE TO SHAREHOLDERS

#### Transfer of equity shares of the Company to the DEMAT Account of Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority

Notice is hereby given that pursuant to the provisions of Section 124 of the Companies Act, 2013 (the Act) read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 (the Rules), as amended, the Equity Shares of the Company in respect of which dividend has remained unclaimed or unpaid for a period of seven consecutive years or more are required to be transferred by the Company to the Demat account of the IEPF Authority.

Adhering to the various requirements as set out in the Rules, the Company has, so far transferred to the IEPF Authority on respective due dates, all shares in respect of which dividend(s) for the financial year 2011-12 or before had remained unpaid or unclaimed for seven consecutive years or more. The Company is now communicating individually to the concerned shareholders whose shares are liable to be transferred to IEPF Authority during the financial year 2020-21 for taking appropriate action.

The Company has sent individual notices to the concerned shareholders at their registered addresses whose shares are liable to be transferred to the IEPF Authority advising them to claim their unclaimed dividends. The details of the concerned shareholders whose shares are due for transfer to the IEPF Authority will be uploaded on the Company's website www.britannia.co.in. Shareholders are requested to refer to the said website to verify the details of unclaimed dividends and the shares which are liable to be transferred to the IEPF Authority.

The concerned shareholder(s) holding shares in physical form and whose shares are liable to be transferred to the IEPF Authority, may note that upon transfer of shares to IEPF Authority, the original share certificate(s) which are registered in their name will stand automatically cancelled and be deemed non-negotiable. In case of shares held in Demat Form, to the extent liable to be transferred, shall be debited from the shareholders account.

In case the Company does not receive any communication from the concerned shareholders by 31 August 2020, the Company shall, with a view to comply with the requirements set out in the Rules, dematerialise and transfer the shares to IEPF Authority by way of corporate action by the due date as per procedure stipulated in the Rules.

The shareholders may note that upon transfer of the shares to IEPF Authority, including all benefits

accruing on such shares, if any, the same can be claimed only from the IEPF Authority by making a separate application to the IEPF Authority in Form IEPF-5 as prescribed under the Rules and the same is made available at IEPF website i.e., www.iepf.gov.in. In case the shareholders have any queries on the subject matter and the Rules, they may contact

Mr. Birender Thakur, Deputy General Manager, M/s KFin Technologies Private Limited, the Company's Registrar and Share Transfer Agents, at Karvy Selenium Tower B, Plot No. 31-32, Gachibowli Financial District, Nanakramguda, Hyderabad – 500032, Tel: +91 40 67162222; Fax +91 40 23420814 (from 9.00 a.m. to 6.00 p.m.) Email id: einward.ris@kfintech.com.

For Britannia Industries Limited

Sd/-Thulsidass T V Place: Bengaluru Date: 15 June, 2020 Company Secretary



### MAHARASHTRA SCOOTERS LTD.

Regd.Office: C/o.Bajaj Auto Ltd., Mumbai-Pune Road, Akurdi, Pune-411035 Website: www.mahascooters.com E-mail: investors\_msl@bajajauto.co.in Phone: 020-66106564

### NOTICE (for the attention of Equity Shareholders of the Company)

Subject: Transfer of equity shares of the Company to Investor Education and Protection Fund Authority (IEPF) Demat Account

NOTICE is hereby given to the members pursuant to Section 124(6) of the Companies Act, 2013, read with Rule 6 of Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, as amended, ('the Rules') as under:-

In terms of section 124(6) of the Companies Act, 2013 read with the Rules, all dividends remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years from the date of transfer to Unpaid Dividend Account are required to be transferred by the Company to the 'Investor Education and Protection Fund' (IEPF) Authority established by the Central Government.

Shareholders are requested to note that the dividend declared during the financial year 2012-13, which remained unpaid or unclaimed for a period of seven years will become due for transfer to the IEPF in August 2020. The corresponding shares on which dividend remains unpaid or unclaimed for seven consecutive years will also get due to be transferred as per the procedure set out in the Rules.

In view of the COVID-19 pandemic in India, there is a possibility that the individual notice to the shareholders who have not claimed their dividend for seven consecutive years or more in terms of the said Rules may not be received by them. At the same time, the Company is making all efforts to dispatch the notices to the aforesaid shareholders physically or by email. The Company will, however, not transfer such shares to the IEPF where there is a specific order

of the Court / Tribunal restraining any transfer of such shares or where the shares are hypothecated/pledged under the Depositories Act, 1996. Concerned shareholders of the Company are hereby requested to claim the dividend declared during the financial year 2012-13 and onwards on or before 10 August 2020, failing which the

Company, with a view to adhering with the requirements of the Rules, shall transfer the dividend for the financial year 2012-13 and the underlying shares to the IEPF without any further notice. Please note that no claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend amount and shares transferred to IEPF. Shareholders may claim the dividend and corresponding shares transferred to IEPF including all benefits accruing on such shares, if any,

from the IEPF authorities after following the procedure prescribed in the Rules. For ready reference, the Rules are made available under the 'Investors' section on the website of the Company. The details of such shares liable to be transferred to IEPF are also made

available on the website of the Company. For further clarifications or assistance, you may write to us at:

Shri N. S. Kulkarni Company Secretary / Nodal Officer Maharashtra Scooters Limited

Mumbai-Pune Road. Akurdi, Pune – 411035 E-mail: kulkarnins@bajajauto.co.in Tel: 020-66106564

C/o. Bajaj Auto Complex,

Place: Pune

Date: 16 June 2020

Mr. Mohd. Mohsin - Sr. Manager KFin Technologies Private Limited Unit: MAHARASHTRA SCOOTERS LIMITED Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32,

Gachibowli Financial District, Nanakramguda, Hyderabad – 500 032 Direct No: 040 6716 1562 / 040 6716 1583 E-mail: einward.ris@karvv.com

N.S. Kulkarni

for Maharashtra Scooters Limited

Company Secretary

METRO COMMERCIAL COMPANY LIMITED CIN: L51109AS1985PLC002401 Registered Office: B. R. Chandak Market

Marwari Patty, Ward No. 6, Guwahati-785001

Phone: +91-0361-2516223 E-mail: metrocommercialcompany@gmail.com Website: www.merlocommercialcompany.com

Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements Regulations, 2015, notice is hereby given that a eating of the Board of Directors of Metro Commercial Company Limited, is scheduled to be held on Monday, June 29, 2020 at 4:30 p.m, at the igistered Office of the Company at B. R. Chandak Market, Marwari Patty, Ward No. 6, Jorhat, Guwahati-785001, to consider and approve, interalia, the Audited Financial Results of the Company for the quarter and financial year ended on March 31 2020 in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind AS) Information in this regard is also available on the

Exchange of India Limited's website, viz. www.metrocommercialcompany.com and www.msei.in. By Order of the Board For Metro Commercial Company Limited Vishal Kumar Sharma

Whole Time Director June 15, 2020 DIN: 07310503


PREMIER SYNTHETICS LIMITED CIN - L99999GJ1970PLC100829 Reg. Office: Surana House, Behind Klassic Chambers Swastik X Rd, Opp. Narnarayan Complex, Navrangpura, Ahmedabad-380009, Gujarat. NOTICE

June, 2020 at 02:00 PM at the registered office of the Company at Surana House, Behind Klassic Chambers, Swastik X Rd, Opp. Narnarayan Complex, Navrangpura, Ahmedabad-380009, inter alia, to consider & approve Audited Financial Results for the Quarter and Financial Year ended 31s March, 2020, to consider dividend on the non-convertible non-cumulative redeemable preference shares and to transact other business with the permission of chairman For further details please refer the web-link http://www.premiersyntheticsltd.com/ & https://www.bseindia.com/stock-shareprice/premier-synthetics-ltd/premsyn/

VINOD RANA Place: Ahmedabad Company Secretary

(CIN: L85195TG1984PLC004393)

8-2-120/113, Road No.2, Banjara Hills, Hyderabad - 500034 r@neulandlabs.com, www.neulandlabs.com; Tel: +91-40-30211600. NOTICE OF 36" ANNUAL GENERAL MEETING



April 8, 2020, April 13, 2020 and May 5, 2020, respectively, issued by Ministry of Corporate Affairs (collectively referred to as "MCA Circulars") and Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circular") without the physical presence of the Members at a common venue. The Notice of the AGM and the Annual Report for the year 2019-20 including the financial statements for the year ended March 31, 2020 will be sent only by email to all those Members, whose email addresses are registered with the Company or with their respective Depository Participants ("Depository"), in accordance with the MCA Circulars and the SEBI Circular. Members can join and participate in the

AGM through VC / OAVM facility only. The instructions for joining the AGM and the manner of participation in the remote electronic voting or casting vote through the e-voting system during the AGM are provided in the Notice of the AGM. Members participating through the VC/QAVM facility shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013. The Notice of the AGM and the Annual Report will also be available on the Company's website www.neulandlabs.com, web sites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and

Shareholders whose email ID is already registered with the Company / Depository, Login details for e-voting are being sent on your registered email addresses. In case your email ID is not registered please follow below instruction-

 Shareholders holding shares in dematerialized mode, are requested to register their email addresses and mobile numbers with their respective depositories through their depository participants.

following documents by email to AGM2020@neulandlabs.com: a. signed request letter mentioning your name, folio number and complete

Driving Licence, Election Identity Card, Passport) in support of the address

of the Member as registered with the Company. 4. The Board has not recommended a final dividend and the interim dividend of Rs. 2/- per equity share declared by the Board on February 11, 2020 shall be

with Rule 10 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014, and Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from July 4, 2020 to July 10, 2020 (both days inclusive)for the purpose of giving effect to the transmission and transposition requests lodged with the Company.

accordance with the applicable provisions to their email addresses within in the stipulated time lines.

Place: Hyderabad Date: 15.06.2020

Company Secretary

(Under Regulation 36A (1) of the Insolvency and Bankruptcy (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016) RELEVANT PARTICULARS

Name of the corporate debtor ISPAT PROFILES INDIA LIMITED Date of incorporation of corporate debtor 27th November, 1985 Authority under which corporate debtor is incorporated / registered **ROC Kolkata** Corporate identity number/limited L27101WB1985PLC039547 liability identification number of corporate debtor Address of the registered office and Registered office: Park Plaza, 71 Park principal office (if any) of corporate debtor | Street, Kolkata700016 West Bengal

Date of invitation of expression 16" June 2020 of interest (earlier issuance date 2" March 2020) Eligibility for resolution applicants under section 25(2)(h) of the

Code is available at: Available at the IBBI website (ibbi.gov.in) Norms of ineligibility applicable

under section 29A are available at: 10. Last date for receipt of expression of interest

11. Date of issue of provisional list of prospective resolution applicants 12. Last date for submission of 9" July 2020 objections to provisional list

13. Date of issue of final list of PRA 14. Date of issue of information memorandum, evaluation matrix and request for resolution plans to prospective resolution applicants

Manner of obtaining request for resolution plan, evaluation matrix, information memorandum and further information Last date for submission of

Manner of submitting resolution plans to resolution professional Estimated date for submission of Authority for approval

Name and registration number of resolution professional Name, Address and e-email of the resolution professional,

as registered with the Board correspondence with the resolution professional 22. Further Details are available

at or with

23. Date of publication of Form G

/ rajiv@kvrassociates.in

assigning any reason and without any liability whatsoever.

Place: Kolkata

can be obtained by mailing to RP at cirp.ispatprofile@gmail.com / rajiv@kvrassociates.in 8" August 2020 by 6.00 pm In Electronic and physical form. Details to be provided at the time of Request for Resolution Plan (RFRP) On or before 25" August 2020 Rajiv Kumar Agarwal Regn. No.: IBBI/IPA-001/IP-P00552/2017-2018/10982 Rajiv Kumar Agarwal 7, Grant Lane Room No 317, 3" Floor, Kolkata- 700012. Email: rajiv@kvrassociates.in

rajiv@kvrassociates.in

16" June 2020 (earlier 7" Feb and 2" March 2020) NOTE: Earlier Form G dated February 07, 2020 and addendum dated March 02, 2020 stands withdrawn pursuant to resolution passed by CoC at the meeting held on June 12, 2020.

Notes: 1. The RP/COC shall have discretion to change the criteria for the EOI at any 2. RP/COC reserves the right to cancel or modify the process/application without

Rajiv Kumar Agarwal Date: 16/06/2020 Resolution Professional in the matter of Ispat Profiles India Limited IBBI/IPA-001/IP-P00552/2017-2018/10982

The Meeting of the Board of Directors of

the Company will be held on Monday, 29 Company's website and on the Metropolitan Stock

For, Premier Synthetics Limited Date: 15/06/2020

NEULAND LABORATORIES LIMITED

Registered office: Sanali Info park, A Block, Ground Floor, NEULAND

Company will be held on Friday, July 10, 2020, at 10.00 a.m. IST through Video Conferencing / Other Audio Visual Means ("VC/OAVM") facility in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and rules framed thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 read with General Circular Nos. 14/2020, 17/2020 and 20/2020 dated

Shareholders holding shares in physical mode are requested to register their email addresses and mobile numbers by sending scanned copy of the

 self-attested scanned copy of the PAN Card; and c. self-attested scanned copy of any document (such as AADHAR Card

considered as the final dividend for the Financial Year 2019-20. Notice is further given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read

The Notice of 36th Annual General Meeting will be sent to the shareholders in

For Neuland Laboratories Limited

Sarada Bhamidipati

FORM G INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST

28° November 2019 Insolvency commencement date of corporate debtor

> The prospective resolution applicant (PRA) shall have minimum Net Worth of Rs.10 Crore and in case of Financial Institutions (including ARCs) minimum AUM of Rs. 50 Crore as on 31/03/2019 or later. The PRA shall not be ineligible under Section 29A of IBC 2016.

or can be obtained by mailing to RP at cirp.ispatprofile@gmail.com / rajiv@kvrassociates.in 1" July 2020 by 6.00 pm. The EOI shall be accompanied with a refundable EMD of Rs. 5 Lakhs. 4" July 2020

14° July 2020 09" July 2020

resolution plans

resolution plan to the Adjudicating

Address and email to be used for Postal address Same as 20. Email address: cirp.ispatprofile@gmail.com/

Please mail at cirp.ispatprofile@gmail.com

financiales er

or to the Registrar and Transfer Agent at the following address:

( ? in Lakhs

Quarter ended

31.03.2019

Audited

26.287.65

4,748.18

4,748.18

3,563.98

3,262.63

2,660.56

2.68

2.68

Quarter ended

31.03.2019

Audited

22,531.05

6,055,66

4,930.95

4,564.22

By and on behalf of the Board

Challa Rajendra Prasad

**Executive Chairman** 

Consolidated

ended

31.03.2020

Audited

1.14,365.05

22,531.51

22,531,51

16,593.60

17,927.39

2,660.56

12.47

12.47

Year ended

31.03.2020

Audited

95.659.04

29,833.26

23,893.26

23,316.32

90,178.97

Quarter ended

31.03.2020

Audited

26,746.07

5.767.46

5.767.46

4.219.58

4,856.88

2,660.56

3.17

3.17

Quarter ended

31.03.2020

Audited

24.534.65

11,148.26

9.644.58

9.241.30

MUTUALFUNDS

## कोरोना के डर से बाजारों में गिरावट, सूचकांक 552 अंक गिरा

मुंबई, 15 जून (भाषा)।

नई दिल्ली, 15 जून (भाषा)।

देश-दुनिया में कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ने और संक्रमण की दूसरी लहर चलने की चिंता में देश के शेयर बाजारों में सोमवार को गिरावट का रुख रहा। बंबई शेयर बाजार का प्रमुख सूचकांक सोमवार को 552 अंक गिरकर बंद हुआ, वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 159 अंक गिर गया।

दिन के कारोबार के दौरान 857 अंकों से अधिक की गिरावट के बाद 30 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक कारोबार की समाप्ति पर 552.09 अंक यानी 1.63 फीसद टूटकर 33,228.80 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टाक एक्सचेंज का निफ्टी भी 159.20 अंक या 1.60 फीसद की गिरावट के साथ 9,813.70 पर बंद हुआ।

तेल कंपनियों ने सोमवार को लगातार नौवें

दिन पेट्रोल-डीजल के दाम में उनकी लागत के

मृताबिक समायोजन करते हुए बढोतरी की है।

सोमवार को पेट्रोल का दाम 48 पैसे और डीजल

75.78 से बढकर 76.26 रुपए प्रति लीटर और

डीजल का दाम 74.03 से बढ़कर 74.26 रुपए

प्रति लीटर पर पहुंच गया। तेल विपणन

कंपनियों द्वारा जारी मूल्य अधिसूचना में यह

जानकारी दी गई है। इसमें कहा गया है कि

ईंधनों के दाम परे देश में एक साथ बढाए गऐ

हैं लेकिन राज्यों में इन पर लगने वाले बिक्री

कर या मुल्यवर्धित कर (वैट) की दर अलग

होने से यह वृद्धि अलग-अलग हो सकती है।

इस वृद्धि के बाद दिल्ली में पेट्रोल का दाम

का दाम 23 पैसे प्रति लीटर बढ़ा दिया गया।

सूचकांक में सबसे अधिक सात फीसद की गिरावट इंडसइंड बैंक के शेयर में दर्ज की गई। इसके अलावा एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, आइसीआइसीआइ बैंक, एनटीपीसी, टाटा स्टील, आइटीसी और एचडीएफसी बैंक में भी बिकवाली देखने को मिली। रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचसीएल टेक, सन फार्मा और ओएनजीसी के शेयर बढ़त के साथ बंद हुए। इस दौरान बीएसई बैंकेक्स, रीयल्टी, फाइनेंस, कैपिटल गुड्स और बिजली क्षेत्र के सचकांक 3.53 फीसद तक की गिरावट के साथ बंद हुए। जबकि ऊर्जा और हेल्थकेयर सूचकांक में 0.90 फीसद तक की तेजी देखने को मिली। मिड कैप सूचकांक में 1.15 फीसद की गिरावट हुई, जबिक स्मॉल कैप सूचकांक सपाट बंद हुआ।

एचडीएफसी सिक्योरिटींज के खुदरा शोध प्रमुख दीपक जसानी ने कहा कि कमजोर

तेल कंपनियों द्वारा 7 जून, 2020 को इन

ईंधनों के दाम में दैनिक संशोधन, समायोजन

की पुनः शुरुआत करने के बाद यह लगातार

नौवां दिन है, जब इनके दाम बढ़ाए गए हैं।

लगातार नौ दिन की वृद्धि के बाद पेट्रोल के

दाम में पांच रुपए और डीजल के दाम में 4.87

रुपए प्रति लीटर की वृद्धि हो चुकी है। सरकार

ने मार्च 2020 के मध्यम में पेट्रोल-डीजल पर

उत्पाद शुल्क में वृद्धि की थी। तब से दोनों

ईंधनों के दाम में घट-बढ़ रुकी हुई थी। इस

दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों

इंडियन आयल कारपोरेशन, भारत पेट्रोलियम

कारपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम

कारपोरेशन लिमिटेड ने उत्पाद शुल्क वृद्धि को

ग्राहकों पर डालने के बजाय अंतरराष्ट्रीय

बाजार में कच्चे तेल के दाम में आने वाली

गिरावट के साथ उसका समायोजन किया।

वैश्विक संकेतों के कारण प्रमुख भारतीय सूचकांकों में 15 जून को गिरावट हुई। बाजार में तेज गिरावट हुई, हालांकि यूरोपीय सूचकांकों और डाउ वायदा के अनुरूप ही उनमें कुछ सुधार हुआ। उन्होंने कहा कि चीन और अन्य वैश्विक आर्थिक सुधार की संभावनाओं को झटका लगा है, जिससे दुनिया भर में शेयर बाजारों में गिरावट हुई। शंघाई, हांगकांग, टोक्यो और सोल के बाजारों में 4.76 फीसद तक की गिरावट दर्ज की गई। यूरोप के शेयर बाजारों में

## थोक मूल्य सूचकांक साढ़े चार साल के निम्न स्तर पर

नई दिल्ली, 15 जून (भाषा)।

ईंधन और बिजली क्षेत्र की मांग में भारी गिरावट के कारण मई में थोक मुल्य स्चकांक (डब्ल्पीआइ) आधारित महंगाई दर साढ़े चार साल के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई। इस दौरान अवस्फीति 3.21 फीसद रही। हालांकि, इस दौरान खाद्य जिंसों के दाम बढ़े हैं। अवस्फीति, मुद्रास्फीति के ठीक उलट है। यह वह स्थिति है जब मुद्रा का मुल्य बढ़ता है यानी कीमतें घटती हैं।

वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के सोमवार को जारी बयान के मृताबिक डब्लुपीआइ ने नवंबर 2015 के बाद का सबसे निचला स्तर छुआ है। उस समय अवस्फीति 3.7 फीसद थी। बयान में कहा गया है कि मासिक डब्लपीआइ के आंकड़ों पर आधारित मुद्रास्फीति की सालाना दर मई 2020 में शुन्य से नीचे 3.21 फीसद (अस्थाई आंकड़ा) रही है। एक साल पहले इसी महीने में यह 2.79 फीसद रही थी। मई 2020 के दौरान खाद्य जिंसों में मुद्रास्फीति 1.13 फीसद रही जबिक अप्रैल में इस समृह की मुद्रास्फीति 2.55 फीसद रही थी।

आंकड़ों के अनुसार दलहनों में थोक मुद्रास्फीति मई में भी लगातार दहाई अंक में 11.91 फीसद पर बनी रही जबकि अप्रैल में यह

be lost or misplaced or stolen:-

स्थान : नई दिल्ली

तारीख: 15.06.2020

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

(पूर्व का कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड)

सीआईएन : L65110TN2014PLC097792

आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय सूचना

95000/- (रुपये पिचानबे हजार मात्र) होगी।

यदि कोई हो, की बिक्री का कोई अधिकार नहीं है।

पंजीकृत कार्यालय : केआरएम टॉवर्स, 8वीं मंजिल, हैरिंगटन रोड, चेटपेत,

अधिकृत प्राधिकारी : रोहित दुदेजा । सम्पर्क नम्बर : 7838324723

चेन्नई-600031. दूरभाष : +91 44 4564 4000 । फैक्स : +91 44 4564 4022.

परिशिष्ट-IV-A [नियम 8(6) के प्रावधान देखें]

अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु विक्रय सूचना

प्रतिभूत हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित प्रतिभूति हित

अधिनियम, 2002 की वित्तीय आस्तियों तथा प्रवर्तन के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण के तहत अचल

एतद्वारा सामान्य रूप से जनता को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों) एवं जमानती(यों) को सुचित किय

जाता है कि प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवीकृत/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति, जिस पर

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व के कैपिटल फर्स्ट होम फाइनेंस लिमिटेड) के अधिकृत

प्राधिकारी ने भौतिक कब्जा किया है, का कर्जदार तथा सह-कर्जदारों के रूप में जावेद अख्तर एवं

निशात फातमा से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व का कैपिटल फर्स्ट होम फाइनेंस लिमिटेड)

के 03.03.2018 तक बकाये रु. 27,62,693/- की वसूली के लिए 03.07.2020 को ''जहाँ है जैसे

आरक्षित मूल्य रु. 9,50,000/- (रुपये नौ लाख पचास हजार मात्र) होगा तथा जमा धरोहर राशि रु.

अचल सम्पत्ति का विवरण

**अस्वीकरण** : कृपया ध्यान दें कि कथित सुचना केवल अचल सम्पत्ति की बिक्री के लिए निर्गत की

गयी है और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड को अचल सम्पत्ति पर उपस्थित किसी चल आस्तियों।

है'', ''जो है यहीं है'' तथा ''जो कुछ भी है वहीं है'' के आधार पर बिक्री की जायेगी।

Name of shareholder

I purchaser

without entertaining any claim/damages whatsoever it may be

Mohan Chandra Suvarna /

UNITED DRILLING TOOLS LIMITED

CIN- L29199DL1985PLC015796

Regd. Off.: 139A, First Floor, Antriksh Bhawan, 22, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110001

Phone No. 011-43502330, Fax. No. 0120-2462675

E-Mail id: compsect@udtltd.com, Website: www.udtltd.com

NOTICE OF LOSS OF SHARE CERTIFICATES

Notice is hereby given that the under mentioned share certificates of the company are stated to

Any person(s) who has a claim of lien or interest in the above shares and having any objection

to the issue of duplicate share certificates in lieu of the above, is requested to notify the same to

the Company's Share Transfer Agent namely Alankit Assignments Limited, 3E/7, Alankit Height

Jhandewalan Extension, New Delhi-110055 within 15 days from the date of the notice, indicating

the nature of claim or lien or interest of his objection in the said issue of duplicate share certificates

hrough an affitdavit otherwise the company will proceed to issue duplicate share certificate

एतदद्वारा सेबी (सचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 ("सुचीयन

विनियमावली') के विनियम 29, 33 के साथ पठित विनियम 47 के अनुसरण में सूचना दी जाती हैं कि

कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक बुधवार, 24 जून, 2020 को आयोजित की जाएगी, जिसमें

अन्य के साथ, (i) 31 मार्च, 2020 को समाप्त तिमाही और वार्षिक हेतु कम्पनी के लेखापरीक्षित

वित्तीय परिणाम (पथक्कत एवं समेकित) तथा (ii) वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए लाभांश का

यष्ठ सूचना कम्पनी की वेबसाइट www.rvnl.org तथा स्टॉक एक्सचेन्जेज की वेबसाइट

www.bseindia.com तथा www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है, जहां कम्पनी के शेयर सूचीबद्ध है।

'पदनामित व्यक्तियों और उनके निकट सम्बन्धियों द्वारा ट्रेडिंग के विनियमन तथा प्रतिवेदन के लिए

आरवीएनएल आचार संहिता" के अनुसरण में ट्रेंडिंग विन्डो बंद रहने की अवधि 1 अप्रैल, 2020 से

आरम हो चुकी है तथा 24 जून, 2020 को वित्तीय परिणाम सार्वजनिक किए जाने के 48 घंटे बाद

Share certificate

Number

18503-18505

18491-18492

12.31 फीसद पर थी। आलू की मुद्रास्फीति 52.25 फीसद रही। इसके विपरीत सब्जियों के दाम में 12.48 फीसद की अवस्फीति रही। अंडे, मांस और मछली जैसे प्रोटीनयक्त वस्तुओं की मुद्रास्फीति मई में 1.94 फीसद रही।

सरकार के खुदरा स्तर पर जुटाए पिछले सप्ताह जारी आंकड़ों के मुताबिक मई में खाद्य मुद्रास्फीति 9.28 फीसद बढ़ी है। इनमें दलहन, मांस और मछली, तेल और वसा के दाम अधिक तेजी से बढ़े। ईंधन और बिजली समृह में मई में अवस्फीति 19.83 फीसद रही। एक महीना पहले भी यह 10.12 फीसद (अवस्फीति) रही थी। विनिर्मित उत्पादों के समृह में भी मई के दौरान 0.42 फीसद की अवस्फीति रही।

इक्रा की प्रधान अर्थशास्त्री अदिति नायर ने कहा कि कच्चा तेल जैसे कुछ जिंसों के दाम में तेजी से आने वाले समय थोक मुद्रास्फीति में गिरावट थमेगी, वहीं खाद्य वस्तुओं के दाम पर दबाव कम होने का संकेत है। इससे खुदरा खाद्य

वस्तुओं की महंगाई दर नरम होगी। उन्होंने कहा- हमारा मानना है कि मौद्रिक नीति समिति मुद्रास्फीति को काबू में रखने के

फिलहाल

No. of

shares

P. K. Ojha

FCS: 8698

Company Secretary

बजाय

Distinctive No.

1824614-1824913

1823414-1823613

For United Drilling Tools Limited

पंजीकत कार्यालयः प्रथम तल अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा प्लेस

आर. के. पुरम, नई दिल्ली, दक्षिण दिल्ली- 110066

कोन नं > 011-26738299, फॅक्स: 011-26182957

एन: L74999DL2003GOI118633, ईमेल: investors@rvnl.org

कृते रेल विकास निगम लिमिटेड

IDFC FIRST Bank

कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकाँरी

आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाने पर ध्यान देगी। वैसे भी महंगाई दर निकट भविष्य में नरम रहेगी।

### मई में निर्यात 36.47 फीसद घटा

नई दिल्ली, 15 जून (भाषा)।

देश के निर्यात में लगातार तीसरे महीने गिरावट आई है। मई में यह 36.47 फीसद घटकर 19.05 अरब डॉलर रहा। मुख्य रूप से पेट्रोलियम, कपड़ा, इंजीनियरिंग, रत्ने व आभूषण के निर्यात में कमी के कारण कुल निर्यात घटा है।

वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार आयात भी पिछले महीने 51 फीसद घटकर 22.2 अरब डॉलर रहा। इससे व्यापार घाटा घटकर 3.15 अरब डॉलर पर आ गया जो पिछले साल इसी महीने में 15.36 अरब डॉलर था।

### BIRLA CORPORATION LIMITED

CIN: L01132WB1919PLC003334 Registered Office: Building, 9/1, R.N. Mukherjee Road, Kolkata - 700 001 Phone: 66166729/6737/6738, Fax: 033 - 22487988/2872

#### E-mail: investorsgrievance@birlacorp.com, Website: www.birlacorporation.com NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 read with Rules made thereunder and the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Companies are permitted to serve various notices/documents to its Members through electronic modes.

Service of Documents through Electronic mode

Further, in view of present circumstances caused due to COVID-19, the Ministry of Corporate Affairs (MCA) vide its circulars no. 14/2020 dated April 08, 2020, no. 17/2020 dated April 13, 2020 and no. 20/2020 dated May 05, 2020 has allowed certain classes of Companies to conduct their Extra-Ordinary General Meeting (EOGM) and Annual General Meeting (AGM) through Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM), during the calendar year 2020 and send financial statements (including Board's report, Auditor's report or other documents required to be attached therewith) and Notices of General Meetings to the Members only through e-mails registered with the Company or with the depository participants/depository. Further, SEBI vide Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020 has also relaxed the requirement of furnishing hard copy of Annual Reports to the Members.

The Company shall accordingly send all notices and documents like General Meeting Notices (including AGM), Financial Statements, Directors' Report, Auditors' Report, Postal Ballot Papers and other communications to the Members through electronic mode, at the designated email addresses as furnished by them in the manner prescribed under the Companies Act, 2013, SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and the relevant circulars issued in this regard.

ew of the above. Members are requested to register their e-mail addresses, obile nos. or changes therein, if any, and PAN in the following manner:

Members with Physical Holding: A signed request letter mentioning your folio no. and the email id/ Mobile No. / PAN (self-attested copy) that is to be registered (Scanned copy of the signed request letter may be sent to the Company's e-mail id: investorsgrievance@birlacorp.com and / or to the Company's Registrar & Transfer Agent, M/s MCS SHARE TRANSFER AGENT LIMITED, e-mail id:

Members with Demat Holding: Register/ Update through respective Depository Participants (DPs) (Any such updation effected by the DPs will automatically reflect in the Company's subsequent records).

The Company requests all the Members who have not yet registered or updated their email addresses/ Mobile No. / PAN with the Company to register the same at

Please ignore this Notice if your E-mail ID is already registered with us.

We look forward to your support.

Place: Kolkata

Dated: 15th June, 2020

For BIRLA CORPORATION LIMITED **GIRISH SHARMA** Jt. President (Indirect Taxes) & Company Secretary

टाटा कैपिटल फाइनोसियल सर्विसेस लिमिटेड पंजी. कार्यालयः 11वां तल, टावर ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, गणपत राव कदर मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई- 400013 शाखा का पता: 7वां तल, विडियोकॉन टावर, झण्डेवालान एक्स्टेंशन, नई दिल्ली

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिये)

(प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियमावली, 2002 के नियम 8 (1) के अनुसार जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 एवं 9 के साथ पठित धारा 13 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचन तिथि 22 फरवरी, 20 जारी कर ऋणधारकों को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सचना में वर्णित राशि लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनत को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 9 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षर्र

ने यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतदुद्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन संपत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय नीचे वर्णित तिथि से उस पर ब्याज तथा दंड ब्याज, चार्जेज, लागत आदि के साथ नीचे वर्णित राशि के लिये

टाटा कैपिटल फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड के चार्ज के अधीन होगा।

	साविधक प्रातानाध (या) का	सूचना ाताथ	का	सम्पात्तया का विवरण	
	नाम		तिथि		
15	1. हुकुम चन्द उर्फ हुकम चन्द, पुत्र	₹.	10 जून,	सम्पत्ति सं. 1ः सी-2-ए, खसरा	
	श्री ओम प्रकाश शर्मा, एच.नं. 1/10,		2020	नं. 3/18/2, ग्राम जोहरीपुर,	
11	115, शांति निवास, गली नं. 1, बेस्ट	(रुपये एक करोड़		जीवनपुर, मैन रोड, शाहदरा,	
	गोरखपार्क, शाहदरा, दिल्ली-	छब्बीस लाख		दिल्ली-110094, निर्मित क्षेत्र	
	110032, साथ हीः सी-2-ए, खसरा	सोलह हजार तीन		121.33 वर्ग यार्ड्स। चौहदीः	
	नं. 3/18/2, ग्राम जोहरीपुर@	सौ तीस तथा पैसे		पूर्वः मैन रोड, पश्चिमः अन्य	
	जीवनपुर, मेट्रो स्टेशन जवाहर नगर,			सम्पत्ति, उत्तरः सी-2बी, दक्षिणः	
	मैन रोड, शाहदरा, दिल्ली-110092,	1		सी-2 सम्पति सं.2 प्लॉट नं	
	साथ हीः प्लॉट नं. 1/9898, जीएफ,	2020		1/9898 भू तल, गली नं. 3ई,	
	गली नं. 3ई, वेस्ट गोरख पार्क,			वेस्ट गोरख पार्क, शाहदरा,	
	शाहदरा, दिल्ली 2. श्रीमती हेम लता			दिल्ली जिसका विशेष रूप से	
	शर्मा, पत्नी हुकुम चन्द शर्मा, शांति			विवरण बिक्री प्रलेख तिथि	
	निवास, एच.नं. 1/10, 115, गली नं.			1.7.2013 में दिया गया है।	
	1, राजमाता मंदिर के निकट, वेस्ट			एरिया माप 156 वर्ग यार्ड्स।	
	गोरख पार्क, दिल्ली-110032 3. मै.			चौहद्दीः पूर्वः रोड, पश्चिमः गली,	
	शांति इंजीनियरिंग कम्पनी द्वारा उसके			उत्तरः प्लॉट नं. ९९०० दक्षिणः	
	प्रॉप्राइटर, सी-2ए, मैन लोनी रोड,			प्लॉट नं. 1/9892	

तिथि: 16.06.2020 स्थानः दिल्ली

दिल्ली-110032

जवाहर नगर, उत्तर पूर्व, दिल्ली-

110094, 4. हर्ष शर्मा पुत्र हुकुम चन्द

एच.नं. 1/10, 115, शांति निवास,

गली नं. 1, बेस्ट गोरखपार्क, शाहदरा

टाटा कैपिल फाइनांसियल सर्विसेस लिमिटेड के लिये

प्राधिकृत अधिकारी

### नियुक्तियां

## **OSBI** भारतीय स्टेट बैंक केंद्रीय भर्ती एवं पदोन्नति विभाग कॉर्परिट सेंटर, मुंबई

## स्पेशलिस्ट कैंडर ऑफिसर पदों की भर्ती

निम्न पदों के लिए करार पर नियुक्ति करने हेत् भारतीय नागरिकों द्वारा आवेदन

आमंत्रित किए जाते हैं. विज्ञापन संख्या रिक्त पद

मुख्य वित्तीय अधिकारी CRPD/SCO-CFO/2020-21/01 1 डेटा प्रोटेक्शन अधिकारी CRPD/SCO-DPO/2020-21/02 पात्रता कसौटियां (उम्र, शैक्षणिक पात्रता, अनुभव, इत्यादि), जरूरी शुल्क और अन्य जानकारी

बैंक की वेबसाइट https://bank.sbi/careers या https://www.sbi.co.in/careers पर प्रकाशित विस्तृत विज्ञापन में उपलब्ध है, उम्मीदवारों को सुचित किया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन करने से पहले पूरा विज्ञापन पढ़ लें और सुनिश्चित करें कि उनकी पात्रता और अन्य विवरण सही हैं.

कृपया ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने एवं शुल्क का भुगतान करने की अवधि जानने के लिए विस्तृत विज्ञापन पढें.

अन्य सवालों के लिए कृपया हमें "CONTACT US" → "Post Your Query" लिंक द्वारा लिखें जो बैंक की उपरनिर्दिष्ट वेबसाइट पर उपलब्ध है.

स्थानः मुंबई महाप्रबंधक दिनांक: 09.06.2020 (CRPD)

पेट्रोल-डीजल के दाम में लगातार

नौवें दिन बढ़ोतरी

पेट्रोल 48 पैसे और डीजल 23 पैसे लीटर महंगा

देशों में कोरोना संक्रमण के मामले फिर बढने से भी एक फीसद से अधिक की गिरावट देखी गई। अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट कच्चे तेल का

वायदा भाव 0.93 फीसद गिरकर 38.37 डालर प्रति बैरल पर बोला गया। विदेशी विनिमय बाजार में भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 19 पैसे ट्रटकर 76.03 पर बंद हुआ।

### चार फीसद स्टार्टअप ने कारोबार बंद किया

नई दिल्ली, 15 जून (भाषा)।

एक सर्वेक्षण में पाया गया कि पूर्णबंदी के कारण कारोबार बंद रहने से 38 फीसद स्टार्टअप के पास फंड खत्म हो गया है और 30 फीसद के पास एक से तीन महीने की नकदी बची है। लोकल सर्कल के एक सर्वेक्षण के मृताबिक 16 फीसद ऐसी संस्थाओं ने कहा कि उनके पास 3 से 6 महीने की नकदी बची है। इस सर्वेक्षण में 8,400 से अधिक स्टार्टअप व एसएमई उद्यमों के 28,000 से अधिक

सर्वेक्षण में 12 फीसद लोगों ने कहा कि उनके पास एक महीने से भी कम समय की नकदी बची है। लोकल सकेल की रिपोर्ट में कहा गया है कि चार फीसद ने कहा कि पूर्णबंदी के कारण वे पहले ही कारोबार ब्रंद कर चुके हैं। रिपोर्ट में कोविड-19 महान् की रोकथाम के लिए लागू किए गए पूर्णबंदी का भारत के स्टार्टअप और एमएमई पर असर का आकलन किया है।

### यू.पी. एसबेस्टस लिमिटेड

(सुचीबद्ध दायित्वों एवं प्रकाटिकरण आवश्यकताओं) 29(1)(अ) के नियमन 47 के अनुसार कंपनी के निदेशक मण्डल की बैठक दिनांक 25 जून, 2020 को अपराह 01:30 बजे, महमूदाबाद एस्टेट बिल्डिंग, 15-हजरतगंज, लखनऊ में आयोजित की जाएगी, जिसमें कार्यसूची के अनुसार अन्य विषयों के साथ लेखा परीक्षा के दिनांक 31.03.2020 को समाप्त तिमाही / वार्षिक के वित्तीय परिणामों

कृते यू.पी. एसबेस्टस लिमिटे

(मनीष कुमार दिनांक : 15.06.2020

कंपनी का रजिस्टीकृत कार्यालय एक राज्य से प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन केन्द्रीय सरकार के समक्ष क्षेत्रिय निदेशक

30 के उपनियम (5) के खंड (क) के मामले में

राज्य' से 'कर्नाटक राज्य' में स्थानातरित करने की गई है।

रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के पते पर भी मेजेगा

हरियाणा-122018,इंडिया कृते वेलडोमैक इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड

वाला विज्ञापन

की धारा 14 और कंपनीज (इनकार्पोरेशन) नियमों, 2014 के नियम 41 के विषय में

ंकंपनी के प्रस्तावित बदलाव/स्थित हारा प्रभावित होने वाले कोई व्यक्ति, अपनी आपत्ति इस सचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के अन्दर संबंधित क्षेत्रीय निदेशक उत्तरी क्षेत्रीय. द्वितीय तल. अंत्योदय भवन. सीजीओ कम्प्लैक्स, लोधी रोड, दिल्ली-110003 को विरोध के कारण तथा हित की प्रकृति वर्णित करने वाले शपथ-पत्र द्वारा समर्थित आपत्तियों को पंजीकृत डाक द्वारा या कारणों को डिलीवर कर सकते है जिसकी प्रति आवेदक कंपनी

हिते एवं कृते आवेदक ज़िग्मा इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ह./- सतीश कुमार गुप्ता, निदेशक,

प्रतिभागियों ने अपनी राय दी।

### पंजीकृत कार्यालय :

एतदद्वारा सुचित किया जाता है कि सेबी अधिनियम 2015 के अंतर्गत विनियम

(सरे राज्य में अंतरित करने के लिए समायार पत्र में

जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय : 213, एसएस

केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन फाइल का प्रस्ताव करती है के लिए तारीख **10 जून 2020** को आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के संगम ज्ञापन में संशोधन की पृष्टि की मांग

213, एसएस प्लाजा, सेंक्टर 47, गुडगॉव

शिथि : 15.06.2020 स्थान : गुडगॉव

सार्वजनिक कंपनी को निजी कंपनी में बदलने के लिए समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाने क्षेत्रीय निदेशक, कारपोरेट मामलों का मंत्रालय,

PLC070383) जिसका पंजीकृत कार्यालय एफ-11 उद्योग नगर, नई दिल्ली-110041 है

सरकार को आवेदन करने की इच्छुक है।

तिथि: 15.06.2020 स्थानः दिल्ली DIN: 01258475

## पो. ऑफ. मोहनलालगंज, लखनऊ-226301 (यू.पी.)

प्रपन्न सं. आइएनसी : 26 फ़ंपनी (नियमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में[

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम

वेलडोमैक इंजीनियरिंग प्राईवेंट लिमिटेड प्लाजा, सेक्टर 47, गुडगाँव हरियाणा-122018,

जेसमें कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय **"हरियाणा** 

कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह मसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत हों के साथ अपनी आपत्ति प्रावेशिक निवेशक को इस [चना के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर बी-2 विंग, द्वितीय तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 परो पर पंजीकृत डाक दवारा मेज सकता है या सुपर्द कर सकते है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके निम्नलिखित

विजय कुमार पूर्णकालिक निदेशक डीआईएन : 07490591 पता 201, बी-ब्लॉक, मनार एलिगेस, सेक्टर-2, एचएसआर लेआउट, बैंगलोर-560102

"फार्म नं. आइएनसी–25ए"

उत्तरी क्षेत्र बेंच. दिल्ली के समक्ष कंपनीज अधिनियम, 2013, कंपनीज अधिनियम, 2013

जिग्मा इंडस्ट्रीज लिमिटेड (CIN: U74120DL1995

सामान्य जनता को एतदुद्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी ऐसे बदलाव को कार्यान्वित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए दिनांक 15.06.2020 को आयोजित असाधारण सामान्य बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी को निजी लिमिटेड कंपनी में बदलने की इच्छुक है और कंपनी ने ऊपरकथित नियमों के साथ पठित कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 14 के अंतर्गत केंद्र

नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय के पते पर भेजनी है:

### 9 Contact no of Procurement 8986845246 officer 10 Helpline Number if e-0651-2206238 procurement Cell Note:- \* Any change and other information can be seen

1 Name of the Work

Nodal Officer **Building Construction Department**, PR 229476 (Building) 20-21 (D) Ranchi

### मद्देनजर हमारा अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान देश में मिठाइयों और नमकीन उत्पादों का कुल कारोबार घटकर 65,000 करोड़ रुपए के आसपास रहने

इंदौर, 15 जून (भाषा)।

देश में मिठाइयों और नमकीन

उत्पादों का बाजार भी कोविड-19

का प्रकोप झेल रहा है। आर्थिक

संकट से ग्राहकों की कमी के बीच

मजदुरों की किल्लत से मिटाई-

नमकीन निर्माताओं ने अपनी

इकाइयों की उत्पादन क्षमता घटा दी

है। जानकारों का अनुमान है कि

महामारी की मार के कारण राष्ट्रीय

स्तर पर मिठाई-नमकीन उद्योग को

इस वित्त वर्ष में 35,000 करोड़ रुपए

नमकीन मैन्युफैक्चरर्स के निदेशक

फिरोज एच नकवी ने मुंबई से

फोन पर बताया कि बाजार पर

कोविड-19 के दुष्प्रभावों के

फेडरेशन ऑफ स्वीट्स एंड

का घाटा झेलना पड़ सकता है।

वाला है। उन्होंने बताया कि 2019-20 में देश में मिठाई-नमकीन उद्योग का कारोबार करीब 1,00,000 करोड़ रुपए के स्तर पर रहा था। इसमें मिठाइयों का 60,000 करोड़ रुपए का कारोबार शामिल है।

नकवी ने बताया कि कोविड-19 संकट के कारण मिठाइयों के कारोबार पर ज्यादा बुरा असर पड़ा है। पूर्णबंदी में कारोबार ठप रहने से संयंत्रों और दुकानों में मिठाइयों का

# बड़ा स्टॉक खराब हो गया जिससे अनुराग बोथरा का अनुमान है कि

नई दिल्ली, 15 जून (भाषा)।

मारुति सुजुकी इंडिया (एमएसआइ) ने सोमवार को कहा कि प्रवेश स्तर की छोटी कार के मामले में ऑल्टो कार लगातार 16वें साल सबसे बेहतर बिक्री वाली मॉडल बनी है। 2019-20 के दौरान इस मॉडल की 1.48 लाख कारों की बिक्री हुई है। कंपनी के कार्यकारी निदेशक (विपणन और बिक्री) शशांक श्रीवास्तव ने कहा कि ऑल्टो का मजबूत ग्राहक आधार ही इसकी ग्राहकों के बीच लोकप्रियता को बताता है।

स्वास्थ्य भवन, त्यागी वाटिका, जेल वैल, बीकानेर फोन- 0151-2201142 email-eemhbikaner@ymail.com email-rajsngt33@yahoo.com

क्रमांकः- EE/M&H/BKN/2019-20/8510 दिनांकः- 03/06/2020 ई-टेण्डरिंग निविदा सूचना संख्या:- 03/2020-21

निर्माण विभाग/डाक एवं दूर संचार विभाग/रेल्वे/एमईएस इत्यादि में पंजीकृत संवेदकों जो कि राजस्थान सरकार के उपयुक्त श्रेणी के संवेदकों के समकक्ष हो, से निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्यूरमेंट निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। निविदा से सम्बन्धित विवरण DIPR की वेबसाईट www.dipron-

DIPR/C/4069/2020

बहुत ज्यादा उत्साहजनक नहीं हैं क्योंकि कोविड-19 से उत्पन्न आर्थिक संकट के कारण लोगों की देश में संगठित और असंगठित

बाजार के मौजूदा सुरते-हाल के कारण इनमें से अधिकांश इकाइयों ने अपनी उत्पादन क्षमता घटा दी है। नकवी ने बताया कि मिठाई-नमकीन कारखानों में काम करने वाले हजारों प्रवासी मजदर कोविड-19 के प्रकोप के कारण अपने गांव लौट गए थे। इस वजह धीमी पड गई है। इसका बडा असर

मिठाइयों के उत्पादन पर पड़ा है। क्योंकि आज भी कई मिठाइयां हाथों से बनाई जाती हैं। उन्होंने कहा कि मिठाई-नमकीन उद्योग को अब दीपावली त्योहार से थोड़ी उम्मीद है। लेकिन सब जानते हैं कि इस बार की दीपावली पहले जैसी

नहीं रहने वाली है। इंदौर नमकीन उत्पादन के मामले में देश का अग्रणी केंद्र है। जहां इसकी सैकड़ों छोटी-बड़ी इकाइयां हैं। इंदौर के नमकीन-मिठाई निर्माता संघ के सचिव

## ऑल्टो लगातार 16वें साल सबसे बेहतर बिक्री वाली कार

कार्यालय अधिशाषी अभियंता. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, बीकानेर

निम्नहस्ताक्षरकर्ता द्वारा राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से जिला श्रीगंगानगर में रु. 495.00 लाख के 3 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण कार्य हेतु एए श्रेणी के संवेदकों के समकक्ष उपर्युक्त श्रेणी में सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के अधिकृत संगठनों/केन्द्रीय लोक

line.org http://eproc.rajasthan.gov.in व विभागीय वेब साईट http://rajswasthya. nic.in पर देखा जा सकता है। अधिशाषी अभियन्ता

निर्माताओं व विक्रेताओं को काफी कोविड-19 के प्रकोप से मार्च, नुकसान उठाना पड़ा है। पाबंदियों में अप्रैल और मई में स्थानीय ढील के बाद मिठाइयों और नमकीन नमकीन उत्पादकों को 150 करोड़ उत्पादों की बिक्री ने जून से थोड़ी रुपए से ज्यादा का कारोबारी रफ्तार पकड़ी है। लेकिन संकेत नुकसान झेलना पड़ा है। बंद में ढील मिलने के बाद कई सेंव-नमकीन विक्रेताओं ने ऑनलाइन बुकिंग के जरिए ग्राहकों के लिए इन उत्पादों की होम डिलीवरी सेवा

खरीद क्षमता पर असर पड़ा है। क्षेत्र में मिठाइयां और नमकीन उत्पाद बनाने वाली इकाइयों की तादाद दो लाख से ज्यादा है।

से भी इन कारखानों की रफ्तार

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग बीकानेर

## मिठाई-नमकीन उद्योग को पैंतीस हजार करोड़ के घाटे का अनुमान

शुरू की है। लेकिन इससे उतनी

बीडीआर बिल्डकॉन लिमिटेड

CIN-L70100DL2010PLC200749

पंजी. कार्यालयः ३१, जंगपुरा रोड

भोगल, नई दिल्ली–110014

कॉर्पोरेट कार्यालयः 21, रिंग रोड,

तीसरी मंजिल, सामने का भाग, नई

दिल्ली-110024

ਟੇਕ: 011-26477771,26477772,

वेबसाइटः www.bdrbuildcon.com

ई—मेलः info@bdrbuildcon.com

उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के

विनियमन ४७ के साथ पठित विनियमन २९

के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचित किया

जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की

एक बैठक गुरूवार, 25 जून, 2020 को 21

रिंग रोड, तीसरी मंजिल, सामने का भाग

नई दिल्ली—110024 में दोपहर 3.00 बर्ज

में आयोजित की जाएगी जिसमें 31 मार्च

2020 को समाप्त तिमाही के लिए कम्पनी

के तिमाही वित्तीय परिणामों पर विचार

उक्त जानकारी कम्पनी की वेबसाईट

तथा साथ ही स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाईट

https://www.nseindia.com/emerge\_itp/

बीडीआर बिल्डकॉन लिमिटेड के लिए

कीमिया बायोसाइंसेस लिमिटेड

(पूर्व में लॉरेल ऑर्गेनिक्स लिमिटेड विदित)

पंजी. कार्या.: ग्राम भोंडसी, तहसील सोहना, गुड़गाँव

122102, हरियाणा

E-mail: laurelorganicslimited@gmail.com

Web: www.laurel.co.in

CIN: L24239HR1993PLC032120,

Tel: 011-47063600, Fax: 011-47063601/02

भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सूचीयन दायित्व तथा

उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 29

प्रावधानों के अनुपालन में हम आपको सुचित करना चाहते

कि कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक शुक्रवार, 26 जून,

2020 को 2.00 बजे अप. में कम्पनी के कॉर्पोरेट कार्यालय

अर्थात् 974, 9 वाँ तल, अग्रवाल मिलेनियम टावर-II, नेताजी

सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, नई दिल्ली-110034 में आयोजित होनी

तय है जिसमें अन्य बातों के अलावा निम्न पर विचार. अनमोदन

क) 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्त वर्ष के लिये कम्पनी के

ख) 31 मार्च. 2020 को समाप्त छमाही के लिये परिसम्पत्तियं

तथा देयताओं के विवरणों के साथ 31 मार्च, 2020 कं

समाप्त तिमाही एवं वर्ष के लिये कम्पनी के अंकेक्षित

कीमिया बायोसाइंसेस लिमिटेड के लिये

समीर गोयल

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

(DIN: 00161786)

अंकेक्षित वित्तीय परिणाम (स्टैंडएलॉन)

वित्तीय परिणाम (स्टैंडएलॉन)

नई दिल्ली

15 जून, 2020

कर उसे अभिलेख में लिये जाएंगे:

राजेश गुप्ता

प्रबंध निदेशक

www.bdrbuildcon.com पर भी उपलब्ध

तथा अनुमोदन किए जाएगे।

पर भी उपलब्ध होगी।

स्थानः नई दिल्ली

तिथि: 16 जून, 2020

(सूचीयन दायित्व तथा अन्य

बिक्री नहीं हो पा रही है।

पर विचार किया जाएगा

उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली

आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि यह कंपनी

वेलडोमैक इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड

फ्लैट सं. एफएफ-1, सामने की ओर प्रथम तल पर, सम्पत्ति सं. बी-110, खसरा नं. 1308, हयात एन्कलेव, ग्राम लोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201102 का सम्पूर्ण भाग विक्रय के विस्तृत नियम एवं फर्स्ट बैंक की शर्तों के लिए कृपया आईडीएफसी www.idfcfirstbank.com में प्रावधानित लिंक देखें

अधिकृत प्राधिकारी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पर्व का कैपिटल फर्स्ट होम फाइनेंस लिमिटेड दिनांक : 11.06.2020

### e-Procurement Cell BUILDING CONSTRUCTION DEPARTMENT JHARKHAND, RANCHI

#### e-Procurement Notice (Short term) Tender Reference no,-BCD/Special Works Division,BCD, Ranchi/NIT No-1/2020-21, Date: -15.06.2020

Renovation of CM Suite, toilet and

	AANTONIA BIRANINA DANATA	other Miscellaneous work of Jharkhand Bhawan Vasant Vihar, New Delhi
2	Estimated Cost (Rs.)	Rs 6,33,950/ - (Six Lacs Thirty -Three Thousand Nine Hundred Fifty only
3	Time of Completion	Three Months
4	Date of Publication of Tender on Website	22.06.2020 (Date) Up to 11.00 A.M
5	Last Date/Time of Online Submission of bids	29.06.2020 (Date) Up to 5.00 P.M
6	Last Date/Time of Submission of bids Security money and Tender Fee (Hardcopy)	<b>01.07.2020</b> (Date) Up to 12.00 Noon
7	Date / Time of Opening of Bids	02.07.2020 (Date) Up to 12.00 A.M
8	Name & Address of office Inviting tender	e-Procurement Cell Special Works Division Building Construction Department Ranchi

on http://jharkhandtenders.gov.in \* UCAN Registration is Mandatory for the Bidders. e-Procurement Cell Special Works Division

www.readwhere.com